



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 1978/पौष 30, 1899

No. 24] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 1978/PAUSA 30, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1978

का. आ. 26(अ).—केंद्रीय सरकार, रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1974 (1974 का 57) की धारा 17 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (कपड़ा विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 14 (असा.) तारीख 11 जनवरी, 1978 का अधिक्रमण करते हुए, श्री एस. के. सरकार को संदाय आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है और उन स्थानीय परिसीमाओं को समस्त भारत के रूप में परिनिश्चित करती है जिनके भीतर उक्त संदाय आयुक्त अपने को प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग और अपने पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

[फा. सं. 11022/1/78-एन. टी. सी.]

एन. एस. वैद्यनाथन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 1978

S. O. 26(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 17 of the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1974 (57 of 1974) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S. O. 14(E), dated the 11th January, 1978, the Central Government hereby appoints Shri S. K. Sarkar as Commissioner of Payments and defines the local limits within which the said Commissioner of Payments shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on him, as the whole of India.

[F. No. 11022/1/78-NTC]

N. S. VAIDYANATHAN, Jt. Secy.